



SHUBHSHREE BIOFUELS ENERGY LIMITED

(Formerly Known as Shubhshree Bricks Pvt. Ltd.)

Reg.Address: Plot No. 8, Ganesh Vihar B, Pandit T.N. Mishra Marg, Nirman Nagar, Shyam Nagar, Jaipur - 302019, Rajasthan, India.

Contact No: 9799 998 880 | E-Mail: shubhshree@biomassfuel.co.in Website: shubhshreebiofuels.co.in

Date: August 26, 2025

To,
The Manager
Listing and Compliance Department,
NSE Emerge
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot no. C-1, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra-East,
Mumbai-400 051

Symbol: SHUBHSHREE

Subject: Newspaper Advertisement for 12th Annual General Meeting ("AGM") of the Company

Dear Sir/Madam,

We wish to inform you that the 12th AGM of the Company will be held on **Tuesday, the September 30, 2025 at 11:30 A.M.** Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM").

Pursuant to Regulation 30 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of newspaper advertisement published in **Indian Express** (English) and **Nafa Nuksan** (Hindi) edition on August 26, 2025 for informing the Members regarding the 12th AGM of the Company, dispatch of Annual report, e-voting information and other related information.

The same is also available on the website of the Company at www.shubhshreebiofuels.co.in.

We hereby request you to kindly take the same on record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For SHUBHSHREE BIOFUELS ENERGY LIMITED
(Formerly known as Shubhshree Biofuels Energy Private Limited and Shubhshree Bricks Private Limited)

SAGAR AGRAWAL
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DIN: 03209247

Encl: A/A







क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफः ४७०.यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.) ई–मेलः rorpcbudaipur@gmail.com, फोन नं.: 0294–2491269 पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई के लिये आम सूचना

षय:– मैसर्स वी.के. आदिवासी श्रमिक विकास संस्थान, ग्राम – नावडा एवं ग्राम–भेरवा, तहसील roposed River Sand (Bajri) Mining Project of capacity 19,27,656 TPA (ROM), Plot no. 02/2018 roposed), Area 70-89 Hectare (Govt. Land), Located at Khasra no. 279, 281, 1737, 1735 736, 1755, 2038, 454, N/v- Newada & Khasra no. 282, 286, 287, 293, 294, 302 N/v Bherwa ehsii-Sarada, District-Salumber हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई । 1. सर्व साधारण को सूचित कि बाता है कि नैसर्स वी. के आदिवासी श्रमिक विकास संस्थान, ग्राम-नावड़ा एवं ग्राम- भेरवा, तहसील–सराड़ा, जिला–सलुम् स्तावित परियोजना River Sand (Bajri) Mining Project of capacity 19, 27, 656 TPA (ROM), Plot no 02/2018 (Proposed), Area 70-89 Hectare (Govt. Land), Located at Khasra no. 279, 281, 1737 735, 1736, 1755, 2038, 454, N/y- Newada & Khasra no. 282, 286, 287, 293, 294, 302 N/ Bherwa, Tehsil- Sarada, District-Salumber का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण ण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाब गवेदन किया गया है।

. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लं ारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जार्र ov 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।

उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नाकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-। कार्यालय जिला कलेक्टर, सलूम्बर ।

) जानात्व जिला करान्यर, रार्जूबर। 7 सदर्य सचित्र, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय ४, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए — 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षे

) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय. केन्द्रीय भवन. 5वां तल. सेक्टर एच. अलीगंज. लखनऊ (उ.प्र.)।

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सलूम्बर ।

. उपखण्ड अधिकारी, तहसील–सराड़ा, जिला–सलूम्बर। सरपंच, ग्राम–नावड़ा एवं ग्राम – भेरवा, तहसील – सराड़ा, जिला – सलूम्बर।

a) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या ८२४० द्वितिय तल, उ प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। a) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ — ४७०, मेवाड औद्यौगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.) तः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति म्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 14.10.2025 (मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत बाणाकला पंचायत समि नराड़ा, तहसील — सराड़ा, जिला — सलूम्बर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है ।

नाथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव 🖊 आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्याल स्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

KF FINANCE LIMITED REGISTERED OFFICE: # 40-1-144, Corporate Centre, M.G.Road Vijayawada-520 010. Phone No.: 0866-2474644. POSSESSION NOTICE (For immovable property) Rule 8 (1)

Whereas the Undersigned being the Authorised Officer of M/s. IKF Finance Ltd. under t ecuritization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security nterest (Enforcement) Rules 2002, Issued Demand Notices to the Borrower/s as detaile nereunder, calling upon the respective Borrowers to repay the amount mentioned in the saic notices with all costs, charges and expenses till actual date of payment within 60 days from the eceipt of the same. The said Borrowers/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice s hereby given to the Borrowers/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described hereunder In exercise of powers conferred or im under Section 13(4) of the said Act r/w Rule 8 of the said Rules in the dates mentioned alon with the Borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with th properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of **M/s.IKF Financ** Ltd For the amount specified therein with future interest, costs and charges from the respectiv dates. Details of the Borrowers. Co-borrowers and Guarantors, Securities, Outstanding Dues Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed thereunder and Date ossession is given as under

(i) Name of the Borrower/s & Co-Borrower/s; (1) M/s. Shree Balaji Tent House And Light Decoration Rep by its Proprietor Mr.Santosh Kumar Saini, (2) Mr. Santosh Kumar Saini S/o Babu Lal Saini, (3) Mrs. Bimla Devi Saini W/o Santosh Kumar Saini Loan Account No. LXJPR03524-250311712)

Demand Notice Date: 17-06-2025 Possession Date: 21-08-2025 AMOUNT DUE: Rs.11,77,446/- (Rupees Eleven Lakh Seventy Seven Thousand Four Hundr Forty Six Only) as due on 20/08/2025 with further interest and Charges thereon.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: Commercial Shops Measuring 133.33 Sq Yds. (Total measuring 256.83 Sq. Yds.) on Khasra No. 4434, 4435, 4436, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4449, 4452, 4461, 4462, 4464/7751 and 4465 Situated a Village Achrol, Tehsil Amer, Dist., Jaipur, Rajasthan **"Here in after to be referred as said property"** Boundaries as follows **East**: Open Land, **West**: Gali 20 Ft. After Khatedari Land Ol Radheshyam, **North:** Open Land of Gyarsi Lal, **South:** Self Shops of Santosh Kumar

[II] Name of the Borrower/s & Co-Borrower/s: (1) M/s. Mother India Shiksan Sansthan Rep. by ts Proprietor Abdul Aziz Malik, (2) M/s. Unnati Education Institute Rep. by its Proprieto Neha Malik, (3) Mr. Abdul Aziz Malik S/o Ali Mohammad, (4) Mrs. Neha Malik W/o Abdu Aziz Malik. (Loan Account No. LXKTA03523-240286069)

Demand Notice Date: 17-06-2025 Possession Date: 21-08-2025 AMOUNT DUE: Rs. 61,91,237/- (Rupees Sixty One Lakh Ninety One Thousand Tw undred Thirty Seven Only) as due on 20/08/2025 with further interest and Charges thereon DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: All that the Plot of 39, Khasara No. 364 am Sarowar Colony, Gram Rangtalab, Tehsil Ladpura Dist., Kota, Rajasthan. Measuring 166.66 Sq. yd. Boundaries:- **East**: Road 30 Ft, **West**: Plot No. 41, **North**: Road 30 Ft, **South**: Plo

(III) Name of the Borrower/s & Co-Borrower/s: (1) M/s. Like Electric & DJ Sound Rep by it Proprietor Mr. Bhika Ram, (2) Mr. Bhika Ram S/o Khima Ram, (3) Mrs. Geeta W/o Bhik Ram, (4) Mr. Khima Ram S/o Punaram. (Loan Account No. LXJDP03323-240260272

Demand Notice Date: 17-06-2025 Possession Date: 21-08-2025 AMOUNT DUE: Rs.13,46,523/- (Rupees Thirteen Lakh Forty Six Thousand Five Hundre wenty Three Only) as due on 20/08/2025 with further interest and Charges there

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: Patta No. 44, Book No. 67, Misal No. 51 Sankalp No. 02, Gram Manihari, Gram Panchayat Manihari, Panchayat Samiti Pali, District Pa (Raj.) (Hereinafter referred as the Said Property) Admeasuring: Area 1828.5 Sq. Feet Boundaries: **North:** Motaram / Lakaram, **East:** Aam Rasta & Door, **South:** Devaram / Akaram

Date: 21.08.2025, Place: Rajasthan Sd/- Authorised Officer, IKF Finance Limit

SHUBHSHREE BIOFUELS ENERGY LIMITED (Formerly known as Shubhshree Biofuels Energy Private Limiter and Shubhshree Bricks Private Limited) Regd. Office: Plot No. 8 Ganesh Vihar B, Pandit T.N Mishra Marg,

Nirman Nagar, Shyam Nagar, Jaipur-302019 (Raj.) India; Tel. No. 9799998880 shreebiofuels.co.in; Email:- cs@biomassfuel.co.in; CIN :- U38210RJ2013PLC042

PUBLIC NOTICE OF 12™ ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF SHUBHSHREE BIOFUELS ENERGY LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SHUBHSHREE BIOFUELS ENERGY PRIVATE LIMITED AND SHUBHSHREE BRICKS PRIVATE LIMITED) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM") AND REMOTE E-VOTING INFORMATION.

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Shubhshree Biofuels Energy Limited (formerly knowns as Shubhshree Biofuels Energy Private Limited and Shubhshree Bricks Private Limited) ("Company") is scheduled to be held on Tuesday September 30, 2025 at 11.30 A.M. (IST) through Video conferencing ("VC" or other audio visual means ("OAVM"), in accordance with the applicable provisions of Companies Act. 2013 ("Act") and rules made thereunder Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosur Requirements) Regulations, 2015 read with General circular no. 09/202 dated September 19, 2024 and earlier circulars issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without the physical presence of members at a common venue.

In compliance of the above mentioned MCA Circulars and SEBI Circular the Annual Report of the Company for the Financial year 2024-25 alongwith the Notice of AGM shall be sent through electronic mode (i.e. via e-mail) to only those members whose name appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on August 29, 2025 i.e. the cut-off date and whose mail address are registered with the company/ Registrar & shares transfer agent ("RTA") or Depository participant ("DP"). Physical copy of the Annual Report shall be sent to those shareholders who request for the same by ng at cs@biomassfuel.co.in by mentioning their folio no./DP ID and

. For members who have not registered their e-mail address, a lette providing the web link containing the exact path where details pertaining to the entire annual report is hosted will also be sent at the address registered in the records of RTA/Company/ Depositories.

The notice of 12th AGM and Annual Report for the Financial year 2024-25 will be available on the website of the Company i.e. www.shubhshreebiofuels.co.in and on website of the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Ltd. (NSE Emerge) at www.nseindia.com. The Notice of AGM will also be available on the website of E-voting agency. National Securities Depository Limited ("NSDL") i.e. www.evoting.nsdl.com

Members can join and participate in the 12th AGM of the Company through VC/OAVM Facility only and they shall be counted for the purpose of the reckoning of Quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the 12th AGM and manner of participation in the remote e-voting / e-voting during 12th AGM for all members (including all members holding the shares in physical mode or whose e-mail ids are not registered with the Company/ Registrar & Transfer Agents/ Depository Participants) will be provided in the Notice convening 12th AGM.

Members who have not registered their e-mail address with the Company/RTA/DPs are requested to register their e-mail address by following the below instructions for registration of email id for obtaining Annual Report and login details for e-voting:

Members holding Shares in Members are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom Dematerialized they maintain their demat accounts

Physical mode

Date: 25.08.2025

Place: Jaipur

Members holding | Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address are requested to register/update same by submitting form ISR-1 duly filled and signed along with requisite supporting documents to Bigshare Services Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company at Office No S6-2, 6th floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (Éast) Mumbai

400093, India.
The aforesaid form can be accessed from the website of the RTA at https://www.bigshareonline.com/resourcessebi_circular.aspx#parentHorizontalTab3

For Shubhshree Biofuels Energy Limited (Formerly known as Shubhshree Biofuels Energy Private Limited and Shubhshree Bricks Private Limited

All communications/ queries for the above should be addressed to cs@biomassfuel.co.in or at RTA's mail id to investor@bigshareonline.com.

Nidhi Khandelwa **Company Secretary and Compliance officer** M.No.: A31808 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

APPENDIX IV

[See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Possession Notice (for Immovable Property)

the undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and inforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers con erred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement Rules, 2002 had issued a demand notice dated 10-06-2025 calling upon the borrow ers KAMAL KISHORE BADOTIA and TINA VARMA and M K RESTAURENT AND FAST FOOD mentioned in the notice being of INR 22,31,825/-(Rupees Twenty Two Lacs Thirty One Thousand Eight Hundred Twenty Five Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrow ers and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the progression of the progres erty described herein below in exercise of the powers conferred on him/her unde Section 13(4) of the said Act. read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcemen Rules. 2002 on this 22nd day of August of the year, 2025.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of INR 22,31,825/-(Rupees Twent Two Lacs Thirty One Thousand Eight Hundred Twenty Five Only) interest thereor Borrowers attention is invited to the provisions of Sub-section 8 of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All That Piece & Parcel Of Land Bearing: Patta No. 13, Khasra No. 2889/ 1148 Having Admeasuring 1064 Sqft Land Area Situated At Tehsil Nathdwara, Near Shreenat Colony, Revenue Village Nathdwara, Near Mahadev Temple Rajsamand, Rajasthar India-313301, Bounded As Under: East: Road 30 Ft West: Land Od Pyare Lal Bhi North: Plot Of Shyam Kuwar South: Plot Of Manjulta Vaishnav

Date: 22.08.2025 Aditya Birla Housing Finance Limited Place: UDIAPUR

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL **BENCH AT CHENNAI** CP(CAA)/52(CHE)/2025

CA(CAA)/58(CHE)/2024

In the matter of sections 230 to 232 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013;

And

In the matter of Scheme of Amalgamation and Arrangement of Dhanuka Laboratories Limited ("Transferor Company") with Orchid Pharma Limited 'Transferee Company") and their respective shareholders and creditors ("Scheme");

Dhanuka Laboratories Limited

A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at Linbuzz Business Centre, 2910B, 14th Main Road Anna Nagar West, Chennai, Tamil Nadu – 600 040.

----- Transferor Company / Petition

Authorised Officer

A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at Plot No.121-128, 128A-133, 138-151, 159-164, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Chengalpattu, Tamil Nadu – 603 110.

> -- Transferee Company / Petitione **NOTICE**

Notice is hereby given that by an order dated 05th day of August 2025, the Chennai Bench of the Hon'ble National Company Law Tribunal has fixed the date of hearing of the Company Petition, filed by the Petitioner Companie under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for the sanction of Scheme, on the 24th day of September 2025. Any person desirous of upporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner' Advocate, notice of his intention, signed by him or his Advocate, with his name and address, so as to reach the Petitioner's Advocates not later that two days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shal be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the indersigned to any person requiring the same on payment of the prescribe harges for the sam

Dated this 27th day of August 2025

Pawan Jhabak Counsel for the Petitione New No. 115, First Floor, Luz Churcl Road, Mylapore, Chennai - 600004

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE



Regional Office, Gandhinagar. 3rd Block, 5th Floor, F2, Sector-10a, Karmyogi Bhawan, Gandhinagar (Gujarat)/ Pin 382010

Email: Iro.gandhingr-mefcc@gov.in, Tel No. +9179-29613951

0

Dated: 03/06/2025

o., trincipal Secretary (Forest and Environment), Department of Forest and Wildlife Government of Rajasthan, Vaniki Path, Near Secretariat Jaipur-302005 (Rajasthan) in Jepartment of Rajasthan page to Proposal for non-forestry use of 2.9592 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s Medical Health and Family Welfare depa

his is in reference to the online proposal No. FP/RJ/DISP/504470/2024 dated 06/11/2024 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by Regional Office as per extant rules and regulations. After the examination, the undersigned lirected to convey the "In-Principle/Stage-I" approval of the Central Government under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for the Proposal for non-forestry use (2.9592 has of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s Medical Health and Family Welfare department for Bikaner Territorial Division in Forest Division strict BIKANER (RAJASTHAN) subject to the fulfillment of the following conditions

Conditions

1.1 Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged

for Bikaner Territorial Division in Forest Division, District BIKANER (RAJASTHAN)-reg

Online Proposal No.: FP/RJ/DISP/504470/2024

atory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agen Or Compensatory afforestation over the non-forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agen

1.3 The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearan The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the India Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of Stage--II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, with the stipulated period to the Central Government for information and record

1.5 The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale

The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years satory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropri

The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of Inc dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard

At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional am the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India

All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Savit Bank Account pertaining to the State concerned

1.10 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if requ

The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial num 1.11 forward and back bearing and distance from pillar to pillar The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A sche

of the same may be submitted along with the compliance report

1.13 No labour camp shall be established on the forest land

.14 The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas

1.15 The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.16 The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government

17 The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government 1.18 No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused

1.19 The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the foliand to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's ne artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project

1.21 The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State 1.22 The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year

Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of 1.24 The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the projection.

1.25 Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015 1.26 Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 2.9592 ha Non forest land, Survey No. 1, Village/Chak 7-10 MGD, Tehsil-Lunkaransar, District-Bikane Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.

User agency shall restrict the felling of trees to 89 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State For Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

If the proposed area is part/out side of any Wildlife Sanctuary/National Park, user Agency shall be obtained Wildlife Clearance from competent authority as per the provisions of the ext 1.28 rules and regulation. If required

Standard conditions

2.1 Felling shall be done only in built up area and bare minimum felling shall be permitted in other non-built up areas. Felling of trees before the start of construction should be verified by the concerned DFC 2.2 In case of blank areas along the roads planting of trees should be done in at least 5-meter wide strip

2.3 Only built-up area should be fenced so that other areas are available for free movement of animals 2.4 Along the arterial roads, natural forests should be ma

-principle approval shall be revoked after two (02) years

Unit- 115, Arihant-Nagar, Revenue Village Atur

2.5 The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the St

Conditions residential buildings will be constructed in the proposed area of diversion in future 3.2 The open area after construction will be maintained as green area after plantat 3.3 User Agency will take required permission from the Central Govt for any change in layout plan 3.4 The User Agency shall construct 6 feet high wall along the boundaries of the non-forest land proposed for CA

3.5 User Agency shall provide at its cost required number of Solar Pumps as given by the Forest Department for irrigating the CA plantation After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under section 2 of the Van (Sanrakshan Evan Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission f any issued, shall be intimated to RO, Gandhinagar. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that this In-principle/Stage-I approval shall be valid for a period of 2 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this

Sd/-(Shrawan Kumar Verma Regional Officer/Head of Departmen

HDFC BANK

We understand your world

Mrs. Ranu Pal (Borrower)

Mr. Vinit Raipal (Co-Borrower)

We understand your world Re

HDFC Bank Ltd. Branch: C-25, Bhagwant Das Road, Opp. St. Xaviers School, C-Scheme, Jaipur CIN: L65920MH1994PLC080618 Website: www.hdfcbank.com Regd. Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013

POSSESSION NOTICE

23-Aug-

Whereas the Authorised Officer of HDFC Bank Limited (erstwhile HDFC Limited having amalgamated with HDFC Bank Limited by virtue of a Scheme of Amalgamation approved by Hon'ble NCLT-Mumbai vide order dated 17th March 2023) (HDFC), under the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("said Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act alling upon the following borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective name ogether with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of of the said Notice/ cidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and / or realisation

		p y			
Sr. No	Name of Borrower (s)/Legal Heir(s) and Legal Representative(s)	Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Date of Possession	Description of Immovable Property(ies)/ Secured Asset (s)
1.	Mrs. Vijay Lakshmi W/o Late Mr Kuldeep [Since Deceased], Mrs. Kaushalya Devi M/o Late Mr Kuldeep [Since Deceased] Master. Parv S/o Late Mr Kuldeep [since Deceased] Minor Through His Natural	20,08,897/- As on 31-MAR-2023	27 11 11 2020	20-Aug-2025	FLAT NO. 117, 7th FLOOR, TOWER - Q, HIL VIEW GARDEN, VILLAGE - THADA, TEHSIL TIJARA, BHIWADI, DIST - ALWA (RAJASTHAN) ADMEASURING AREA ABOU
	Guardian Mrs. Vijay Lakshmi, Miss. Palak Through His Natural Guardian Mrs. Vijay Lak: Mother / Wife/son/ Daughter Of Mr Kuldeep [si Legal Heir(s), Legal Representative(s), Succ Deceased]. A/c Nos: 635899395, 63513403	D/o Late Mr Kulo shmi ince Deceased] A cessors And Ass	nd Other Known	And Unknown	

Chittorgarh Road, Near Patel Nagar, Bhilwara 311001, Rajasthan. ADMEASURING AREA rink Hajpar (60-56116Wer) e Loan A/c No: 636682277 & 636682181 it Card A/c no 0001015350000252221 2025 31-Jan-2025 ABOUT: 840.00 Sq. Ft. Ref: (192678) with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realisation. However, since the borrower/s / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the borrower/s / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer/s of HDFC have taken **physical possession** of the immovable property (ies) / secured asset(s) described herein above in exercise of powers conferred on him/them under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above. The borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Property(ies) / Secured Asset(s) and any dealings with the said Immovable

5,88,348.92 22-Feb-2025

Property (ies) / Secured Asset(s) will be subject to the mortgage of HDFC. Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is/are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s. Copies of the Panchnama drawn and Inventory made are available with the undersigned, and the said Borrower(s)/ Legal Heir(s) / Legal presentative(s) is/are-requested to collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

Place: Alwar/ Bhilwara Date: 25/08/2025 Sd/- Authorised Office For HDFC Bank Ltd.

HDFC Bank Ltd. HDFC BANK
Branch: C-25, Bhagwant Das Road, Opp. St. Xaviers School, C-Scheme, Jaipur
CIN L65920MH1994PLC080618, Website: www.hdfcbank.com Tel:0141-6480799
Regd. Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE Whereas the Authorised Officer of **HDFC Bank Limited** (erstwhile HDFC Limited having amalgamated with HDFC Bank Limited by virtue of a Schem of Amalgamation approved by Hon'ble NCLT-Mumbai vide order dated 17th March 2023) (**HDFC)**, under the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("said Act") and in exercise of powers conferred under Section13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following ower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest there at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of the said Notice/s, incidental expenses, costs, charges, etc ti the date of payment and / or realisation.

LIIC	date of payment and of realisation.				
Sr. No	Name of Borrower (s)/Legal Heir(s) and Legal Representative(s)	Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Date of Possession	Description of Immovable Property(ies)/ Secured Asset (s)
1.	Mr. SAJAN SINGH S/O TARSEM SINGH A/c No: - 703481736, 695161249 Ref: (Suit no. 193392)	Rs. 32,21,594/- as on 30 Apr 2025	16-May- 2025	20-Aug- 2025	Flat No. 401, 3rd Floor, Yash Apartment, Plot No. T-56 T-57 & T-58, Narayan Vihar, Block-T, Shrigarpura, Tehis - Sanganer, Distt, Jaipur, Admeasuring Area About 1035 Sq. Ft. (Super Built Up) & 767.20 Sq. Ft. (Built Up)
2.	Mr. Yash Joshi (Borrower) A/c No. 669165378 Credit Card Loan Account Number: 0001013930005269528 Auto Loan Account Number: 113970307	Rs. 41,26,766.48/- As on 31-Jan- 2025	22-FEB-2025	20-Aug-2025	Flat-B-1103, Floor-11, Jaipur 21 Aqua Kh No. 220 226, 227, 228, Phase, Ajmer Road, Vill-Thikariya Jaipur – 302018, Rajasthan
J .	Mr. Ajay Kumar Jain (Borrower) Mr. Nitesh Kumar Jain (Co-Borrower) A/c No. 656479323 & 676572084 Credit Card Loan Account Number: 0001014610012467534 Suit Id: 194625	Rs. 2687500.34/- As on 28-Feb- 2025	27-Mar-2025	20-Aug-2025	Plot 157-South-West-Part, House, In Amrit Nagar Vill Manpur, Devri, Sanganer, Jaipur, Jaipur-302029 Rajasthan
4.	Mr. KAMAL KISHORE SONI S/O Mr. HARISH CHANDRA SONI Mrs. PRIYA SONI W/O Mr. KAMAL KISHORE SONI A/c No: – 631863198, 631307519	Rs. 21,09,221/- As on 30-Apr- 2025	16-May-2025	21-Aug-2025	Flat No. P-0903, 9th Floor, Krish Aura Pearl-A Village-Saidpur, Tehsil-Tijara, Distt Alwar (RAJASTHAN)
5.	Mr. MANISH SOKAL S/O Mr. RAMSWAROOP KUMAWAT A/c No: -701951434, 692217518	Rs. 46,62,963/- as on 28-Feb- 2025	31-Mar- 2025	22-Aug- 2025	Flat / Unit No. 604, Floor-5th, Avenue Prime, Plot No. 5 (south Part) & Plot No. 6, Ram Vihar, Village Gajsinghpura, Jaipur (rajasthan) Admeasuring- 143.99 Sq. Mtr. (super Built Up Area)
6.	Mr. Ajad Khan (Borrower) Home Loan A/c No: 676093251 & 678929448 Credit Card Loan Account Number: 0001013930003628469 Suit Id: 194649	Rs. 16,70,637.89/- as on 28-Feb- 2025	27-Mar-2025	22-Aug-2025	Unit-1007, Govindpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthar
7.	Karan Sharma (Borrower) Deepika Sharma (Co-Borrower) A/c No: 661366470 & 662105654 Credit Card L o a n A c c o u n t N u m b e r : 0001013880004406854 Suit Ur 194651	27,34,061.2/- As on 28-Feb- 2025	26-Mar-2025	22-Aug-2025	Plot No. Rf-23 (25' X 45'), Riddhi Siddhi Enclave - II Killa No. 16, Sq. No. 14, Chak, 3 Ml, Sri Ganganagar Sriganganagar-335001 Rajasthan.

0001013880004406854 Suit ld: 194651 "with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realisation.

However, since the borrower/s / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the borrower/s / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer/s of HDFC have taken Symbolic possession of the immovable properly (ies) / secured asset(s) described herein above in exercise of powers conferred on him/them unde Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above.

The borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal wit The borrower(s) / Legal Representative(s) menutorial releases in particular and the public in general are requested to be deather the aforesaid immovable Property (ies.) / Secured Asset(s) will be subject to the mortgage of HDFC. Borrower(s) / Legal Representative(s) and any dealings with the said immovable Property (ies.) / Secured Asset(s) will be subject to the mortgage of HDFC. Borrower(s) / Legal Representative(s) attention is/are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in espect of time available to redeem the secured asset/s. Copies of the Panchnama drawn and Inventory made are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Legal Representative(s) is / are requested to collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

Place: Jaipur/ Alwar/Sriganganagar Date: 25-August -2025 Sd/- Authorised Officer, For HDFC Bank Ltd. respect of united available to revenil the securior assess. Special state of the property of t

AAVAS FINANCIERS LIMITED

CIN:L65922RJ2011PLCO34297) Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020 POSSESSION NOTICE



Regional Office, Gandhinagar MoEF&CC, Govt of India

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of AAVAS FINANCIERS LIMITED under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred upon me under section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the respective notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said rules on the dates mentioned as below. The borrower and Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the property will be subject to the charge of the AAVAS FINANCIERS LIMITED for an amount mentioned as

Name of the Borrower	Date & Amount of Demand Notice	Description of Property	Date & Type of Possession
RAMANARAYAN RAMANARAYAN, SANTOSH SANTOSH (A/C NO.) LNSGR02919-200124839 & LNSGR04321-220210490 & LNSGR17623-240290090	5 JUN 25 Rs. 261175/- & Rs. 141131/- & Rs. 532133/- 4 JUN 25	PATTA NO- 965, NAGAR PALIKA SURATGARH, SURATGARH, DIST. SRI GANGANAGAR RAJASTHAN 335804 ADMEASURING 990 SQ. FT.	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 21 AUG 25
RADHA DEVI, DEEPAK KUMAR (A/C NO.) LNHNG02920-210171498	5 JUN 25 Rs. 473264/- 4 JUN 25	RESIDENTIAL PLOT SITUATED AT SECTOR NO.12, WARD NO-8 HANUMANGARH JN. TEH. & DIST. HANUMANGARH RAJASTHAN ADMEASURING 47 SQ YARD	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 22 AUG 25
SHANKAR LAL, INDRA INDRA, HANUMAN HANUMAN (A/C NO.) LNSGR03521-220200611	5 JUN 25 Rs. 2267954/- 4 JUN 25	PLOT NO. 26,27 AND 28 CHAK 36 MOD STONE NO. 40/256 SQ. NO. 43 KILLA NO. 21,22,23,24,25 TEH. PILIBANGA DIST HANUMANGARH RAJASTHAN ADMEASURING PLOT NO. 26 -1350 SQ.FT, & PLOT NO. 27 -1350 SQ.FT & PLOT NO. 28 -1350 SQ.FT	SYMBOLIC POSSESSIOI TAKEN ON 22 AUG 25
POONAM POONAM, INDER PAL GUARANTOR: SUNIL VERMA (A/C NO.) HARAW05321-220217059 & LNRAW10022-230225519	5 JUN 25 Rs. 422084/- & Rs. 493788/- 4 JUN 25	PROPERTY NO. 01- PATTA SR. NO. 22 PLOT NO. 01 WARD NO. 01, NAGAR PALIKA PILIBANGA THSILI PILIBANGA DISTT. HANUMANGARH RAJASTHAN & PROPERTY NO. 02- PATTA SR. NO. 23, PLOT NO. 02, WARD NO. 01, NAGAR PALIKA PILIBANGA TEHSIL PILIBANGA DISTT. HANUMANGARH RAJASTHAN ADMEASURING PROPERTY NO. 01-625 SQ.FT.	SYMBOLIC POSSESSIOI TAKEN ON 22 AUG 25
VINOD KUMAR, RENU (A/C NO.) LNSGR02121-220212444 & LNSGR02921-220216412	5 JUN 25 Rs. 2016202/- & Rs. 887126/- 4 JUN 25	PATTA NO 34 BOOK NO 347 VILLAGE DUNGER SINGHPURA GRAM PANCHAYAT DUNGER SINGHPURA TEHSIL SADULSAHAR DISTT SRI GANGANAGAR RAJASTHAN 335025 ADMEASURING 3621 SQ. FT	SYMBOLIC POSSESSIOI TAKEN ON 21 AUG 25
SAVATRI DEVI, SAHAB RAM, VIJAYALAKSHMI GUARANTOR : GANESH SINGH (A/C NO.) LNSGR02918-190077351 & LNSGR04319-200114645	5 JUN 25 Rs. 198345/- & Rs. 105472/- 4 JUN 25	PATTA NO. 05, RESIDENTIAL PROPERTY SITUATED AT PALIWALA TH. SURATGARH DISTT. SRI GANGANAGAR, RAJASTHAN ADMEASURING 2500 SQ. FT.	SYMBOLIC POSSESSIO TAKEN ON 21 AUG 25
NACHHATAR SINGH, SUKHDEEP KOUR (A/C NO.) LNSGN02121-220206889 & LNSGN09421-220214266 & LNSGN17723-240291020	5 JUN 25 Rs. 1080399/- & Rs. 515703/- & Rs. 296532/- 4 JUN 25	PROPERTY NO.01-WEST SIDE OF PLOT NO. 612 CHAK GANESHGARH GRAM PANCHAYAT GANESHGARH DIST SRI GANGANAGAR RAJASTHAN & PROPERTY NO.02- EAST PART OF PLOT NO. 612 CHAK GANESHGARH GRAM PANCHAYAT GANESHGARH DIST SRI GANGANAGAR RAJASTHAN ADMEASURING PROPERTY NO.01-2016 SQ.FT. & PROPERTY NO.02-2016 SQ.FT.	SYMBOLIC POSSESSIOI TAKEN ON 21 AUG 25
JASVINDER KOUR, NAYAB SINGH, AVTAR SINGH GUARANTOR: MUKESH KUMAR (A/C NO.) LNANG16322-230235317 & LNANG17723-240316782	5 JUN 25 Rs. 282456/- & Rs. 132491/- 4 JUN 25	PATTA NO. 10 SITUATED AT CHAK 5 UDM GRAM PANCHAYAT 74 GB TEHSIL ANUPGARH DIST. SRI GANGANAGAR RAJASTHAN ADMEASURING 2400 SQ. FT.	SYMBOLIC POSSESSIO TAKEN ON 21 AUG 25
DHANVATI DEVI, PRDEEP KUMAR, SAHAB RAM, DEENA RAM (A/C NO.) LNRSN00522-230241285	5 JUN 25 Rs. 294882/- 4 JUN 25	PATTA NO. 26 CHAK 8 BGD GRAM PANCHAYT 8 BGD TEHSIL SRI VIJAYNAGAR DIST SRI GANGANAGAR RAJASTHAN ADMEASURING 1350 SQ FEET	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 21 AUG 25
GOPIRAM GOPIRAM, HANUMAN HANUMAN, RAM LAL GUARANTOR : RAJU RAJU (A/C NO.) LNSNG16622-230269040	5 JUN 25 Rs. 260683/- 4 JUN 25	PATTA NO. 12 BOOK NO. 25 GRAM PANCHAYAT SALIWALA TEHSIL TIBBI DISTT. HANUMANGARH RAJASTHAN ADMEASURING 1575 SQ. FEET	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 22 AUG 25
MADHU MADHU, ASHOK KAWATRA GUARANTOR : KARNI SINGH (A/C NO.) LNSGR02922-230263802	5 JUN 25 Rs. 2311907/- 4 JUN 25	PATTA NO. 93, WARD NO. 44, AADRASH COLONY SURATGARH TH. SURATGARH DISTT.SRI GANGANAGAR RAJASTHAN ADMEASURING 2418.75 SQ FEET	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 21 AUG 25
OMPRAKASH OMPRAKASH, KALAWATI KALAWATI, SUBHASH KUMAR GUARANTOR : KEHAR SINGH (A/C NO.) LNNHR02916-170043259	5 JUN 25 Rs. 312822/- 4 JUN 25	PATTA NO. 10, GRAM PANCHAYAT-JASANA, TH,-NOHAR, DISTHANUMANGARH RAJASTHAN 335523 ADMEASURING 377.77 SQ.YARD.	SYMBOLIC POSSESSIO TAKEN ON 22 AUG 25
MOHAN LAL, SANTRO SANTRO GUARANTOR : KALU RAM (A/C NO.) LNNHR02918-190094849	5 JUN 25 Rs. 299433/- 4 JUN 25	PATTA NO. 16, RESIDENTIAL PROPERTY SITUATED AT CHAK 2 RPM PICHKARAI TH. NOHAR DIST. HANUMANGARH, RAJASTHAN ADMEASURING 266.66 SQ.YARD.	SYMBOLIC POSSESSIO TAKEN ON 22 AUG 25
VINOD VINOD, SAROJ GUARANTOR : PAWAN KUMAR (A/C NO.) LNNHR02920-210153843	5 JUN 25 Rs. 225300/- 4 JUN 25	PATTA NO. 30, RESIDENTIAL PROPERTY SITUATED AT DEIDASS, TEH. NOHAR, DISTT. HANUMANGARH, RAJASTHAN ADMEASURING 266.66 SQ.YARD.	SYMBOLIC POSSESSIO TAKEN ON 22 AUG 25

KHASRA NO. 114/1/1.19, VILL. BILAWALI TEH

VILLAGE- CHHAN G.P. DOBRA PATTA NO.(JWR) 50577, P.S. DAG, DIST-JHALAWAR RAJASTHAN (IN)- 326514 / ADMEASURING

GANGDHAR DIST JHALAWAD, RAJASHTAN **ADMEASURING 1200 SQ FT**

SYMBOLIC

TAKEN ON

22 AUG 25

SYMBOLIC

POSSESSION

TAKEN ON 22 AUG 25

Authorised Officer Aavas Financiers Limited

POSSESSION

Jaipur

Date: 26-08-2025

11 MAY 25

Rs. 470328/

8 MAY 25

5 JUN 25

Rs. 600284/

4 JUN 25

PAKAJ MALI, REENA MALI

SUARANTOR: RADHESHYAM MAL

(A/C NO.) LNMAN00618-190102837

KALU LAL, SHANKAR LAL, PEPA BAI

GUARANTOR : GORDHAN LAL (A/C NO.) 241217904208579

Place : Jaipur

पेन कंपनी लिंक का 5 वर्षों तक सालाना १५-२० प्रतिशत ग्रोथ हासिल करने का टार्गेट

कोलकाता@एजेंसी। बढ़ते डिजिटलीकरण के बावजूद लिखने से संबंधित सामान बनाने वाली कंपनी लिंक लिमिटेड ने अगले पांच वर्षों में 15-20 प्रतिशत की सालाना वृद्धि (सीएजीआर) दर्ज करने का लक्ष्य तय किया है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोलकाता स्थित इस कंपनी का राजस्व इस समय लगभग 550 करोड़ रुपये है। लिंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दीपक जालान ने कहा, हमारी योजना चार से पांच वर्षों तक 15 से 20 प्रतिशत चऋवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की है। परिचालन लाभप्रदता 11 प्रतिशत है और राजस्व 550 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि पेन निर्माता कंपनी के जापान, तुर्की और कोरिया की कंपनियों के साथ तीन संयुक्त उद्यम हैं और केन्या की एक इकाई में उसकी बहुलांश हिस्सेदारी है। जालान ने कहा कि भारत में लेखन उत्पाद उद्योग की वृद्धि दर 5-6 प्रतिशत के बीच है और बढ़ते डिजिटलीकरण ने इस प्रगति को कुछ हद तक धीमा कर दिया है। वैश्विक स्तर पर, इस उद्योग का आकार 20 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबिक भारत में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में यह 10,000 करोड रुपये का है। उन्होंने कहा कि यह उद्योग बहुत अधिक पूंजी-प्रधान नहीं है, हालांकि कंपनी सालाना लगभग 20 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय कर रही है। उन्होंने कहा कि यह धन क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाता है। लिंक की पश्चिम बंगाल और गुजरात में दो विनिर्माण इकाइयां हैं। जालान ने कहा कि कंपनी गुजरात में एक संयुक्त उद्यम के तहत एक और इकाई स्थापित कर रही है और इस साल अक्टूबर से परिचालन शुरू हो जाएगा।

पीएसएवी ग्लोबल नवंबर तक भारत में ऑनर स्मार्टफोन का उत्पादन करेगी शुरू

नई दिल्ली@एजेंसी। चीन की स्मार्टफोन कंपनी ऑनर की ब्रांड साझेदार पीएसएवी ग्लोबल नवंबर से भारत में ऑनर उपकरणों का उत्पादन शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है।

कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। पीएसएवी ग्लोबल के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सी. पी. खंडेलवाल ने बताया कि कंपनी की योजना 'मेड इन इंडिया' ऑनर स्मार्टफोन के साथ पहले वर्ष में एक प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2,500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, '' सीकेडी (कम्प्लीट नॉक्ड डाउन) विनिर्माण शुरू होने के बाद हमारा प्रथम वर्ष का लक्ष्य करीब एक प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है, जो लगभग 2,500 करोड़ रुपये के राजस्व के बराबर है। यह लक्ष्य विनिर्माण परिचालन के पहले वर्ष नवंबर 2025 से नवंबर 2026 के भीतर हासिल किया जाएगा।''वैश्विक मोबाइल फोन आपूर्ति पर 'काउंटरपॉइंट रिसर्च' की 2025 की पहली तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष पांच ब्रांड के अलावा ऑनर तेजी से बढ़ते ब्रांड में से एक है। और वैश्विक स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि पहली तिमाही में हुआवेई चीन में सबसे बड़ी मूल उपकरण विनिर्माण (ओईएम) कंपनी थी, जबिक ऑनर एवं मोटोरोला ने कई बाजारों में उच्च वृद्धि दर्ज की।

इंडियन इंवेस्टर्स के लिए लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर प्रमुख रियल एस्टेट मार्केट

नई दिल्ली @आईएएनएस

भारतीय निवेशकों के लिए लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर प्रमुख बाजार बने हुए हैं। दुनिया के 16 शहरों में लग्जरी रेंटल में 2025 की दूसरी तिमाही में औसतन 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की धीमी गति के बाद मामूली सुधार का संकेत है। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। भारतीय निवेशकों के लिए, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और सिडनी जैसे प्रमुख रेंटल बाजार अभी भी रडार पर हैं।

नाइट फ्रैंक के लेटेस्ट प्राइम ग्लोबल रेंटल इंडेक्स के अनुसार, प्रमुख शहरों में निर्माण की कमी ने आपूर्ति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और खासकर दुनिया भर के गेटवे बाजारों में ऑफिस की ओर वापसी के रुझान ने किराये की मांग को बढावा दिया है। हांगकांग में 8.6 प्रतिशत और टोक्यो में 8.3 प्रतिशत की सबसे तेज वार्षिक किराया वृद्धि दर्ज की।

बर्लिन और फ्रैंकफर्ट जैसे यूरोपीय केंद्रों ने ऋमश 4.9 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत के साथ स्थिर वृद्धि बनाए रखी। लंदन और 1.5 प्रतिशत के



साथ सुचकांक में निचले स्थान पर रहते हुए भी अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण मजबूती दिखा रहे हैं।

नाइट फैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, भारतीय निवेशकों का न्यूयॉर्क (रैंक 3), सिंगापुर (रैंक 13) और लंदन (रैंक 14) जैसे वैश्विक प्रवेश द्वार शहरों के प्रति हमेशा से गहरा लगाव रहा है। इन बाजारों में

निरंतर किराये की वृद्धि स्थिर दीर्घकालिक निवेश स्थलों के रूप में उनके आकर्षण की पृष्टि करती है। उन्होंने बताया कि उच्च ब्याज दर के माहौल में भी, सीमित आपूर्ति और निरंतर मांग से किराये की वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रमुख संपत्तियां भारतीय खरीदारों के लिए एक आकर्षक विविधीकरण रणनीति बन

सकती हैं। उच्च ब्याज दरें और लगातार मुद्रास्फीति प्रमुख शहरों में प्रमुख किराये की वृद्धि को कम कर रही हैं, क्योंकि अफोर्डिबिलिटी संबंधी बाधाएं किरायेदारों की किराया बढ़ाने की क्षमता को कम कर रही हैं। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबृत आप्रवासन विकास को मजबृती देता है और सीमित नई आपूर्ति के मुकाबले मांग किराए को दीर्घकालिक प्रवृत्ति दरों की ओर धकेलेगी।

न्यूयॉर्क और मियामी में मध्यम-एकल अंकों की वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, जबकि हांगकांग और टोक्यो में नियामक बाधाओं के बीच मंदी का सामना करना पड़ रहा है। बर्लिन और लंदन जैसे यूरोपीय केंद्रों में नई आपूर्ति की कमी के कारण निम्न से मध्य एकल अंकों की वृद्धि देखी जा

नाइट फ्रैंक के ग्लोबल रिसर्च हेड लियाम बेली ने कहा, प्रमुख ग्लोबल रेंटल मार्केट में विकास की प्रवृत्ति दरों की ओर वापसी दिखाई देने लगी है। हालांकि ज्यादातर बाजारों में अफोर्डिबिलिटी बहुत कम है, मांग आपूर्ति से आगे निकल रही है और हमारा मानना है कि 2025 तक विकास दर और तेज होगी।

टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाले क्षेत्र में महिलाएं कार्यबल का केवल 9%

मुंबई@एजेंसी। देश में उपभोक्ता टिकाऊ सामान बनाने वाले (एफएमसीडी) क्षेत्र ने पिछले दो वर्षों में नियुक्ति में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कार्यबल का केवल नौ प्रतिशत है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। सीआईईएल एचआर की %एफएमसीडी क्षेत्र-प्रतिभा रुझान और अंतर्दृष्टि शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, देश के एफएमसीडी क्षेत्र में मई 2023 से मई 2025 तक नियुक्ति में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश के एफएमसीडी क्षेत्र में काम करने वाले 1,00,000

कार्यकारियों और 1,005 नौकरी के विज्ञापनों से मिली जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गयी है। रिपोर्ट में भारत में काम कर रही एफएमसीडी कंपनियों के करियर खंड से मिली जानकारी भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्र की मजबूत वृद्धि के बावजूद एफएमसीडी क्षेत्र में महिलाएं कुल कार्यबल का केवल नौ प्रतिशत हैं, जो कि प्रमुख क्षेत्रों में सबसे कम है। दीर्घकालिक संरचनात्मक बाधाओं के कारण विनिर्माण, बिक्री और



भूमिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व विशेष रूप से कम है। सीआईईएल एचआर सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आदित्य नारायण मिश्रा ने कहा, ''जो कंपनियां अपनी कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी को सिक्रय रूप से सुधारेंगी, वे न केवल अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित करेंगी, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों का फायदा उठाकर नवाचार और उपभोक्ता समझ में भी सुधार कर सकेंगी क्योंकि महिलाएं उपभोक्ता खरीद निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।"

Data Insights

HOW MUCH PUBLIC MONEY GOES

In the last five years, seven states have given grants to 45 animal welfare organizations (AWOs) amounting to ₹4.43 crore for shelter homes.

State-wise details of funds released to organizations for shelter homes for animals

Rajasthan 合合合合合合合合合合合 12



Data: Shuja Asrar, design: Satish Kumar

Compiled by Nafanuksan Research

सीआईएन : L24117RJ1991PLC006307 पंजीकृत कार्यालय : ई-१०-११ एवं एफ-१४ से १६, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर, (राजस्थान) - ३०२०२२, दूरभाष नंबर : ०१४१-२७७०२/०३ 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') 26 सितम्बर, 2025 को प्रात: 11:00 बजे वीडियो कांफ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (''ओऐवीऍम'') द्वारा आयोजित की जायेगी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों व संबंधित नियमों और सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएं और खुलासा आवश्यकताएं) नियम, 2015 के नियमों एवं कंपनी मामलात मंत्रालय द्वारा जारी आम परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 8 अप्रेल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 13 अप्रेल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021, दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19/2021, दिनांक 8 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 5 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10/2022, दिनांक 28 दिसंबर, 2022, परिपत्र संख्या 09/2023, दिनांक 25 सितंबर, 2023 एवं परिपत्र संख्या 09/2024, दिनांक 19 सितंबर, 2024 (''एमसीए परिपत्रों'') व भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई. 2020. परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 एवं SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024, (''सेबी परिपत्रों'') के अनुपालन में है।

उक्त एमसीए एवं सेबी परिपत्रों की अनुपालना के तहत कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना व वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति सभी सदस्यों को ई-मेल माध्यम से भेजी जायेगी, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'') व संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहा पंजीकत हैं. जबतक कि सदस्य ने फिजिकल कॉपी पाने के लिए निवेदन नहीं किया हो। इसके अलावा. सटीक पथ सिंहत वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, जहाँ कंपनी के वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा जिन्होंने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 34वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 34वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया और निर्देश और 34वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग में भागीदारी या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने का तरीका (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों या जिनके ईमेल पते डीपी/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकत नहीं हैं सहित) 34वीं वार्षिक आम बैठक की सचना में दिए गए हैं वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.poddarpigmentsltd.com, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') वेबसाइट यानी www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर भी उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के यहां पंजीकृत नहीं कराये हैं उनसे निवेदन है कि वह वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट एवं ई-वोटिंग के लिये लॉगिन संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने ई-मेल पते पंजीकृत करा लें :

कृपया लिंक https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email Register.html पर जायें और अपना ई-मेल आईडी . अपडेट कराने हेतु वहां दी गई प्रकिया का पालन करें। कंपनी की 34वीं वार्षिक सभा के नोटिस भेजे जाने के बाद जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते अपडेट करायें हैं वे ई-मेल के जरिए नोटिस की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने हेतु, रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं वार्षिक आम सभा में ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी व पासवर्ड जारी करने के लिए आरटीए से निवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, सदस्य आरटीए को rnt.helpdesk@in.mpms.com पर ई-मेल कर सकते हैं। कृपया अपने डीपी से संपर्क करें व डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपना ई-मेल पता पंजीकृत

कंपनी के निदेशक मंडल ने 20 मई, 2025 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 रुपये फेस वेल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 4 रुपये प्रति शेयर का लाभांश प्रस्तावित किया था जिसके लिए 34वीं वार्षिक आम सभा में शेयर धारकों की मंजरी मिलना शेष है। सेबी द्वारा 3 नवंबर, 2021 को जारी परिपत्र सहित इसके बाद जारी किये गए परिपत्रों के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयर धारकों के लिए पैन पंजीकरण, केवाईसी की जानकारी एवं नोमीनेशन अनिवार्य है। इस आवश्यकता के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों, जिनके फॉलियो किसी भी तरह की केवाईसी जानकारी (जैसे (1) पैन; (2) नोमीनेशन का विकल्प; (3) संपर्क विवरण; (4) मोबाइल नंबर; (5) बैंक खाते की जानकारी एवं (6) नमूना हस्ताक्षर) के अनुसार अपडेटेड नहीं है, वे 1 अप्रेल, 2024 के बाद लाभांश, ब्याज या रिडेम्पशन भुगतान केवल इलेक्ट्रोनिक रूप से पाने के ही हकदार होंगे। उक्त नियमों के अनुसार जिन संबंधित भौतिक फोलियो में उक्त केवाईसी जानकारियां कट-ऑफ दिनांक से पूर्व अपडेटेड नहीं है. उनके लाभांश भगतान को कंपनी द्वारा रोक लिया जायेगा। सदस्य कपया ध्यान दें कि लाभांश उनके बैंक खाते में तभी क्रेडिट होगा जब उनके फोलियों में केवाईसी जानकारियां अपडेटेड होंगी। यह जानकारियां निम्न निर्देशों के अनुसार अपडेट करा लें :

श्रोयर

धारक

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे भरे हुए हस्ताक्षरित फॉर्म ISR-1, ISR-2, ISR-3 या SH-13 के साथ पैन, केवाईसी एवं नोमीनेशन की जानकारी आरटीए, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को सी-101, एम्बेसी 247, एलबीएस मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुम्बई-400083 पर भेजें। उक्त फॉर्म https://web.in.mpms.mufg.com/client-downloads.html पर जनरल टैब के अंतर्गत डाउनलोड किये जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सदस्य, आरटीए को rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

डीमैट शेयर

स्थान : जयपुर

दिनांक : 25 अगस्त, 2025

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वह अपने डीपी के यहां अपने बैंक खातों की जानकारी अपडेट करा

वित्तीय अधिनियम 2020 के प्रावधानों के मताबिक 1 अप्रेल, 2020 से सदस्यों के लिए लाभांश आय टैक्स के दायरे में मानी जायेगी तथा इस संबंध में आयकर अधिनियम 1961 (''आईटी एक्ट'') में दी गई दरों पर कंपनी द्वारा सदस्यों को भगतान किये गये लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की आवश्यकता है। टीडीएस नियमों की अनपालना हेत सदस्यों से निवेदन है कि वह अपने डीपी के यहां अथवा आरटीए को आवश्यकत दस्तावेज भेजकर जो सदस्य भौतिक रूप से शेयर रखते हैं, आयकर अधिनियम के मृताबिक अपने निवासीय स्थिति, पैन, कैटेगरी को अपडेट करा लें।

> निदेशक मंडल के आदेश से पोद्दार पिगमेंट्स लिमिटेड

गौरव गोयनका संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (DIN: 00375811)

50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से भारत के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ने की कम संभावना

नई दिल्ली@आईएएनएस। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका द्वारा 25 प्रतिशत के द्वितीयक टैरिफ लगाने की 27 अगस्त की समय सीमा इस सप्ताह समाप्त हो रही है, लेकिन विश्लेषकों और ग्लोबल रिपोर्ट्स का कहना है कि मजबूत घरेलू मांग के कारण कुल 50 प्रतिशत टैरिफ से भारत की वृद्धि पर कोई खास असर पडने की संभावना नहीं है।

श्रम-प्रधान वस्त्र और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र पर मध्यम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, लेकिन छट, मौजुदा टैरिफ और मजबृत घरेलु मांग के कारण फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन और स्टील फिलहाल अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार, टैरिफ में बढ़ोतरी का व्यापक आर्थिक प्रभाव भारत के घरेलू बाजार के बड़े आकार से कम हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजीगत वस्तुओं, रसायनों, ऑटोमोबाइल और खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्यात को सबसे कठिन समायोजन का सामना करना पड़ेगा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यात गंतव्य है। चीन और वियतनाम के बाद भारत, अमेरिका को तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसकी हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है। पिछले पांच वर्षों में, भारत ने चीन की

कीमत पर अमेरिका में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढाई है, जो 6 प्रतिशत से बढकर 9 प्रतिशत हो गई है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 38 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत रह गई है। अमेरिका भारत पर निर्भर है और उसने सप्लाई चेन व्यवस्थाएं स्थापित

बाजार पर नजर रखने वालों के अनुसार, फाइनेंशियल, टेलीकॉम, विमानन, होटल, सीमेंट और पूंजीगत वस्तुओं जैसे घरेलू उपभोग क्षेत्र प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

मॉर्गन स्टेनली की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढाने की धमकी से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बीच, भारत एशिया में सबसे अच्छी स्थिति वाला

अंडमान के 'होमस्टे' में आगंतुकों को मिल सकते हैं जनजातीय व्यंजन

पोर्ट ब्लेयर@एजेंसी

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 'होमस्टे' आगंतुकों को स्थानीय जनजातीय व्यंजन और द्वीपसमूह के इतिहास एवं संस्कृति के बारे में कहानी सुनाने के लिए विशेष सत्र की पेशकश कर सकते हैं। पर्यटन अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पर्यटन अधिकारियों ने बताया कि हालांकि बहुत से जनजातीय व्यंजन अब लुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ व्यंजन आज भी प्रचलित हैं और उन्हें पर्यटकों को परोसा जाएगा ताकि उनका अनुभव यादगार बन सके।

शुक्रवार को पर्यटन विभाग ने पंजीकृत होमस्टे मालिकों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पर्यटकों के लिए होमस्टे की

गुणवत्ता कैसे बेहतर की जाए, इस पर चर्चा हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारा उद्देश्य

है कि होमस्टे को एक संपूर्ण अनुभव के रूप में पेश किया जाए, जिसमें आरामदायक रुकने की व्यवस्था, खास स्थानीय व्यंजन, ग्रामीण जीवन का अनुभव और स्वच्छ, टिकाऊ पर्यटन शामिल हो। उन्होंने यह भी कहा कि इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि द्वीपों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। पर्यटन विभाग की आयुक्त एवं सचिव चंचल यादव ने कहा, आजकल पर्यटक केवल ठहरने की जगह नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन और लोगों से जुड़ाव जैसी चीजें का अनुभव करना भी

शुभश्री बायोफ्यूल्स एनजी लिमिटेड

मार्ग, निर्माण नगर, श्याम नगर, जयपर-302019 (राज.) भारत

दुरभाष नं.: 9799998880 बेवसाईट :- www.shubhshreebiofuels.co.in ई-मेल :- cs@biomassfuel.co.in; सीआईएन :- U38210RJ2013PLC042232

शुमश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में शुमश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड व शुमश्री ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम ज्ञात) की 12वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") और रिमोट ई-वोटिंग सूचना के माध्यम से आयोजित की जाएगी, की सार्वजनिक सूचना एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि 12 वीं वार्षिक आम बैठक शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी लिमिटेड (जिसे

- पहले शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और शुभश्री ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ('कंपनी') के सदस्यों की ('एजीएम') मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य दुश्य-श्रव्य माध्यमों से ("ओएवीएम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी पहले के परिपत्रों के साथ पढ़ें ("एमसीए परिपत्र") और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 को भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपन्न") द्वारा जारी किया गया. एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित होने वाली है।
- उपर्यक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनपालन में. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना सहित, केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोद (अर्थात ई-मेल के माध्यम से) के माध्यम से भेजी जाएगी जिनका नाम २९ अगस्त २०२५ अर्थात अंतिम तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सची में शामिल है और जिनका ई-मेल पता कंपनी/रजिस्टार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट ('आरटीए') या डिपॉजिटरी प्रतिभागी ('डीपी') के पास पंजीकत है। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जो cs@biomassfuel.co.in पर लिखकर अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी बताकर इसके लिए अनुरोध करते हैं।
- जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए आरटीए/कंपनी/डिपॉजिटरी के रिकार्ड में पंजीकृत पते पर एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित विवरण का सटीक पथ शामिल होगा।
- . 12वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.shubhshreebiofuels.co.in पर उपलब्ध होगी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई इमर्ज) के इमर्ज प्लेटफ़ॉर्म की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी। एजीएम की सुचना ई-वोटिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।
- केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से कंपनी की 12 वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। 12 वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और सभी सदस्यों के लिए 12 वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग में भागीदारी के तरीके (भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सभी सदस्यों य जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं) 12 वीं एजीएम बुलाने की सूचना में प्रदान किए जाएंगे।

जिन सदस्यों ने कंपनी/आरटीए/डीपी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं:

डीमैटरियलाइज्ड मोड में सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते उन डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास शेयर रखने वाले सदस्य पंजीकृत/अपर्डेट करें जिनके पास वे अपने डीमैट खाते रखते हैं।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य

दिनांकः 25.08.2025

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म ISR-1 को विधिवत भरकर और हस्ताक्षरित करके आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट ('RTA') बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को कार्यालय संख्या S6-2, 6वीं मंजिल पिनेकल बिजनेस पार्क, अहरा सेंटर के बगल में, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400093, भारत में जमा करके पंजीकरण/अपडेट करें। उपरोक्त फॉर्म को आरटीए की वेबसाइट https://www.bigshareonline.com/resourcessebi_circular.aspx#parentHorizontalTab3 से प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त के संबंध में सभी संचार/प्रश्न cs@biomassfuel.co.in या RTA की मेल आईडी investor@bigshareonline.com पर भेजे जाने चाहिए।

शुभश्री बायोपयूल्स एनर्जी लिमिटेड के लिए (पूर्व में शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और शुभश्री ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

एसडी/ निधि खंडेलवाल कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

